

## प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 20 जून 2022 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के विधि विभाग में सात दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ किया गया, जिसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफ़ेसर (डॉ.) राजबीर सिंह जी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य वक्ता के तौर पर नंदी फाउंडेशन से मिस अरविंदर कौर ने शिरकत की। Career Counseling & Placement Cell) CCPC म. द. वि., रोहतक के तत्वाधान में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें CCPC के निदेशक डॉ. सुमित गिल जी उपस्थित रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता विधि विभाग की अधिष्ठाता एवम विभागाध्यक्षा प्रोफ़ेसर डॉ. कविता ढुल ने की, ओर उन्होंने विद्यार्थियों को एंप्लॉयमेंट के महत्व के बारे में जानकारी दी, और आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया। कार्यशाला संयोजिका सह प्रोफ़ेसर डॉ. अनुसूया यादव ने विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी। मुख्य अतिथि प्रोफ़ेसर राजबीर सिंह, कुलपति, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक ने छात्रों के साथ रूबरू होते हुए कहा कि छात्र जीवन के समय विद्यार्थियों के चेहरे पर तनाव नहीं होना चाहिए, जो समय विधार्थी जीवन में आपका चल रहा है वह समय फिर नहीं आएगा। आज के समय में विकास की परिभाषा में नया index Happiness का जुड़ गया है, अगर आप तनाव में हैं, तो आप विकासशील नहीं हो सकते, हम ज्ञान के लिए शिक्षा अर्जित करते हैं, और ज्ञान अर्जित करते समय तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, दूसरो से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करें। अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उस पर स्वयं विचार करें, दूसरो द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की हमेशा प्रशंशा करें, ताकि सकारात्मक सोच पैदा हो, अपने इर्द गिर्द नकारात्मक विचारों का दायरा ना बढ़ने दे। विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का विकास करें। सह प्रोफ़ेसर डॉ जसवंत सैनी ने आए हुए सभी मेहमानों व विद्यार्थियों का धन्यवाद किया। आज इस कार्यशाला में मुख्य रूप से विधि विभाग के सभी फैकल्टी मेंबर्स व शोध छात्र और विधार्थी उपस्थिति रहें।

